

# दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette

असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 153]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 22, 2016/आषाढ़ 31, 1938

[ रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 136

No. 153]

NEW DELHI, FRIDAY, JULY 22, 2016/ ASADHA 31, 1938

[N.C.T.D. No. 136

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

कार्यालय आयुक्त खाद्य, आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले

आदेश

दिल्ली, 21 जुलाई, 2016

सं. फा. 3 (4)/09-एफ एंड एस/पी व सी/खण्ड-III/704-723.—जबकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल ने दिनांक 20 जून, 2002 के आदेश सं. 3(4)/2002-एफ एवं एस/पी एंड सी (2)/19 के अनुसार दिल्ली चीनी व्यापारी लाइसेंस आदेश, 1963 रद्द कर दिया है।

जबकि केन्द्रीय सरकार ने उपभोक्ता कार्यकलाप खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, (उपभोक्ता कार्यकलाप विभाग) के दिनांक 29 अप्रैल, 2015 की अधिसूचना सं. का. आ. 1584(अ) के द्वारा विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थों संबंधी (लाइसेंसिंग आवश्यकता, स्टॉक सीमा तथा लाने ले जाने पर प्रतिबंध) निवारण (संशोधन) आदेश, 2016 जारी किया गया है, और जबकि पूर्वोक्त आदेश के खंड 1, 2, 3 और 4 में व्यवस्था है :-

1. ये दिल्ली राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे।

उपबंध है कि यह आदेश असम पश्चिम बंगाल, तमिलनाडू, केरल राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्र पाण्डुचेरी के संबंध में 22 मई, 2016 से प्रभावी होंगे।

2. विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थ संबंधी (लाइसेंसिंग आवश्यकता, स्टॉक सीमा तथा लाने ले जाने में प्रतिबंध) निवारण आदेश, 2002 में बिक्री के लिये क्रय, लाने ले जाने बिक्री, पूर्ति, वितरण या भंडारण संबंधी प्रयुक्त शब्द तथा अभिव्यक्तियां इस आदेश के लागू होने की तिथि से छः माह की अवधि के लिए या आगामी आदेशों तक, जो भी पहले हो, वस्तु "चीनी" के लिये स्थगित रखे जाएंगे।

3. इस आदेश में कुछ भी होते हुए राज्य से बाहर के स्थानों में चीनी की दुलाई, वितरण या निपटान पर प्रभाव नहीं डालेगा।

4. विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थ संबंधी (लाइसेंसिंग आवश्यकता, स्टॉक सीमा तथा लाने ले जाने में प्रतिबंध) के निवारण संबंधी आदेश, 2002 के सभी अन्य उपबंध प्रवृत्त रहेंगे जहां तक उक्त खंड 2 में उल्लिखित अवधि के दौरान थी।

अब इसलिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, खाद्य विभाग, भारत सरकार द्वारा दिनांक 09 जून, 1978 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 800 द्वारा जारी आदेश के साथ पठित अनिवार्य वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 3696 DG/2016

द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल आदेश देते हैं कि दिल्ली चीनी व्यापारी लाइसेंस आदेश, 1963 से संबंधी दिनांक 20 जून, 2002 के आदेश संख्या 3 (4)/2002-एफ एवं एस/पीएंडसी/ (2)/19 विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थ संशोधन संबंधी (लाइसेंसिंग अपेक्षाएं, स्टॉक सीमा तथा लाने ले जाने में प्रतिबंध) आदेश, 2016, दिनांक 29.4.2016 के उपबंधों को चीनी के संबंध में 28 अक्टूबर 2016 तक आगामी अवधि के लिए स्थगित रखा जाएगा।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल  
के आदेश से और उनके नाम पर,  
अमजद टाक, आयुक्त (खाद्य एवं आपूर्ति)

**OFFICE OF THE COMMISSIONER: FOOD, SUPPLIES AND CONSUMER AFFAIRS**  
**ORDER**

Delhi, the 21<sup>st</sup> July, 2016

**No. F.3(4)09/F&S/P&C/Vol-III./704-723.**—Whereas the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, rescinded the Delhi Sugar Dealers Licensing Order, 1963 vide order No. F.3(4)/2002/F&S/P&C (2)/19 dated the 20<sup>th</sup> June, 2002.

Whereas, the Central Government, Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution (Department of Consumer Affairs) vide Notification No. S.O. 1584(E) dated 29-04-2016 has issued the Removal of (Licensing Requirements, Stock Limits and Movement Restrictions) on Specified Foodstuffs (Amendment) Order, 2016 and its clauses 1, 2, 3 and 4 provide as under :-

1. It shall come into force on the date of its publication in the official gazette.

Provided that this order come into force with effect from the 22nd day of May, 2016 in respect of States of Assam, West Bengal, Tamil Nadu, Kerala and the Union Territory of Pondicherry.

2 The words and expressions used in respect of purchase, movement, sale, supply, distribution or storage for sale in the Removal of (Licensing Requirement, Stock Limits and Movement Restrictions) on Specified Foodstuffs Order, 2002 shall be kept in abeyance for commodity 'sugar' for a period of six months from the date of commencement of this order or further orders whichever is earlier.

3 Nothing contained in this order shall affect the transport, distribution or disposal of sugar to places outside the state.

4 All other provisions of the Removal of (Licensing Requirement, Stock Limits and Movement Restrictions) on Specified Foodstuffs Order, 2002 shall continue to remain in force even during the period mentioned in clause 2 above.

Now, therefore, the Lt. Governor of NCT of Delhi, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955) read with the order issued by the Government of India, Department of Food, Notification No.G.S.R.800 dated the 9<sup>th</sup> June, 1978, hereby orders that order No. F.3(4)/2002/F&S/P&C (2)/19 dated the 20<sup>th</sup> June, 2002 relating to Delhi Sugar Dealers Licensing Order, 1963, shall be kept in abeyance to the extent of the provisions of the Removal of (Licensing Requirements, Stock Limits and Movement Restrictions) on Specified Foodstuffs Amendment Order, 2016 dated 29-04-2016 for a further period up to 28<sup>th</sup> October, 2016 in respect of sugar.

By Order and in the Name of the Lt. Governor  
of the National Capital Territory of Delhi,  
AMJAD TAK, Commissioner (F&S)